

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक

9 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :- सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन लेने के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग के आदेश एफ 9(1)एफडी-1(1)/बजट/2012 दि. 01.05.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्त विभाग के आदेश का अवलोकन करें, जिसमें उनके पूर्व पत्र 25.07.2011 जिसमें सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को अधिकतम 6500/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने के निर्देश थे, उसे बढ़ाकर अब रुपये 8000/- प्रति माह किये गये है। प्राप्त आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त आदेशों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस.आर.पिलानिया)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

P.T.O →

**Government of Rajasthan
Finance (Budget) Department**

No. : F.9(1) FD-1(1) Bud 2012

Jaipur, Dated: 01.05.2014

Circular

Sub: - Revised rate for hiring of computers.

1. In partial modification of earlier Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud 2010 Jaipur, dated 25 July, 2011, the ceiling of expenditure up to Rs. 6500/- per month for hiring of computer (along with trained personnel) is hereby revised up to Rs. 8000/- per month per computer.
2. The specification of machine prescribed in Circular No F.9(1) FD-1(1) Bud 2004 dated 28.07.2008, to be hired on above revised rates, is also revised as under:-


Computer- Intel Core i3 / Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix / inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

UPS - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. Computer (along with personnel) will be hired from service providing agency only as per Circular No. F.1(4) FD/ Rules/ 2011 dated 17.06.2011 of Finance (Rules) Department.
4. All other terms and conditions for hiring of computer (along with personnel) as contained in the Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud/ 2004 dated 28.07.2008 would remain the same.

This circular shall be applicable on hiring of computers with revised specification on or after 01.05.2014.



(Siddharth Mahajan)

Special Secretary, Finance (Budget)

Copy forwarded for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to H.E. Governor, Rajasthan, Jaipur.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. Special Assistants/Private Secretary to All Ministers/ State Ministers, Rajasthan, Jaipur.
4. All Addl. Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary/ Spl. Secretary to Govt., Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Chief Secretary.
6. Principal Accountant General (Civil Audit/Receipts and Commercial Audit/A&E), Rajasthan.
7. All Head of the Departments (including Collectors) Rajasthan, Jaipur.
8. All CEOs of PSEs / Corporations / Boards.
9. All Treasury Officers of Rajasthan.
10. Joint Secretaries/Dy. Secretaries, Finance Department.
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department for uploading the Circular on the website.
12. Director, DIPR, Rajasthan, Jaipur.

Copy for information :-

1. Secretary, Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Lokayukt, Rajasthan, Jaipur.
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan, Ajmer.


(M.L. Acharya)
DSF (Budget)

[05 / 2014]